

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
सितंबर, 2021 महीने की प्रमुख उपलब्धियां
सागरमाला के तहत वित्तीय सहायता

भारत सरकार ने वसई-कल्याण जलमार्ग को वर्ष 2016 में राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.-53) घोषित किया था। रा.ज.-53 मुंबई के नजदीक स्थित नगरों को कवर करता है जो घनी आबादी वाले हैं और इनमें यातायात की बहुत समस्याएं हैं। रा.ज.-53 पर यात्री जल परिवहन होने से सड़क और रेल यातायात पर पड़ने वाला बोझ कम करने के लिए एक वैकल्पिक परिवहन माध्यम उपलब्ध होगा। सागरमाला कार्यक्रम के तहत रा.ज.-53 पर फ़ैरी सेवाएं शुरू करने के लिए निम्नलिखित परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं:

- (i) डोंबीवली (रा.ज.-53) पर जेट्टी के निर्माण के लिए 10.65 करोड़ रु
- (ii) काल्हेर (रा.ज.-53) पर जेट्टी के निर्माण के लिए 11.97 करोड़ रु
- (iii) कोलशेट (रा.ज.-53) पर जेट्टी के निर्माण के लिए 15.18 करोड़ रु
- (iv) मीरा-भयंदर (रा.ज.-53) पर जेट्टी के निर्माण के लिए 12.23 करोड़ रु

पत्तन क्षेत्र

- (i) श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन, कोलकाता ने अप्रैल-सितंबर 2020 के दौरान संभाले गए 3,17,382 टीईयू (केडीएस:2,50,239 और एचडीसी: 67,143) की तुलना में 19.91% की वृद्धि दर्ज करते हुए अप्रैल-सितंबर 2021 के दौरान 3,80,574 टीईयू (केडीएस:2,89,746 और एचडीसी: 90,828) की संभलाई की।
- (ii) जवाहरलाल नेहरू पत्तन ने वित्तीय वर्ष 2021-22 की पहली छमाही के दौरान 34.41 मिलियन टन की तुलना में 36.35 मिलियन टन के कुल यातायात की संभलाई की है, जोकि पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 5.63% अधिक है। जवाहरलाल नेहरू पत्तन ने वित्तीय वर्ष 2021-22 की पहली छमाही के दौरान 1,925,284 टीईयू की तुलना में 2,703,051 टीईयू कंटेनर यातायात की संभलाई की है, जोकि पिछले वर्ष की समान अवधि के कंटेनर यातायात की तुलना में 40.40% अधिक है।
- (iii) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने दिनांक 20 सितंबर, 2021 को जवाहरलाल नेहरू पत्तन से ड्वार्फ कंटेनर ट्रेन सेवा वर्चुअल रूप से फ्लैग ऑफ की।
- (iv) श्री शांतनु ठाकुर, माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री ने दिनांक 23 सितंबर, 2021 को विशाखापट्टनम पत्तन का दौरा किया। माननीय मंत्री ने "एच-7 से कॉन्वेंट जक्शन तक ग्रेड सपरेटर" का उद्घाटन किया और "कूज टर्मिनल के विकास" का शिलान्यास किया तथा स्वच्छता पखवाडा कार्यक्रम में भाग लिया।
- (v) डॉ. हीना विजय कुमार गावीत, सांसद तथा अध्यक्ष के नेतृत्व में 'महिला सशक्तीकरण' संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने अन्य सांसदों के साथ दिनांक 17 सितंबर, 2021 को वीपीटी का दौरा किया। समिति ने वीपीटी ने महिला सशक्तीकरण के संबंध में शुरू की गई सीएसआर गतिविधियों की समीक्षा की।
- (vi) श्री सर्बानंद सोनोवाल, माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने दिनांक 24 सितंबर, 2021 को नव-मंगलूर पत्तन के अपने दौरे के दौरान निम्नलिखित का शिलान्यास किया:

- (क) पत्तन के मुख्य द्वार का आधुनिकीकरण
- (ख) केके द्वार के पास नया ट्रक पार्किंग टर्मिनल
- (ग) व्यापार विकास केंद्र का राष्ट्र को लोकार्पण

अंतर्देशीय जल परिवहन

- (i) आईडब्ल्यूटी कालुघाट के निर्माण के लिए 78.28 करोड़ रु. की लागत पर दिनांक 10.09.2021 को कार्य सौंपा गया।
- (ii) सितंबर, 2021 के महीने के दौरान धुब्री टर्मिनल पर 5338.441 एमटी की राहत सामग्री/अनाज (चावल) की संभलाई की गई।
- (iii) सितंबर, 2021 में 5627.50 एमटी कुल वजन के क्रशड स्टोन चिप्स से लदे 23 बांग्लादेशी जलयानों ने धुब्री (भारत) से चिल्मारी (बांग्लादेश) तक का सफर किया।
- (iv) सितंबर, 2021 में 1510.00 एमटी कुल वजन के क्रशड स्टोन चिप्स से लदे 10 बांग्लादेशी जलयानों ने बदरपुर (भारत) से नारायणगंज (बांग्लादेश) तक का सफर किया।
- (v) मैसर्स आरआईएनएल दिनांक 27.08.2021 को वैजाग से 613.22 एमटी के टीएमटी और राऊंड स्टील बार की खेप को आईडब्ल्यूआई बीजी साइडिंग, पांडु तक ले आया।
- (vi) इस वर्ष राष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो आवागमन उत्साहवर्धक बना रहा। पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान 24.15 मिलियन टन की तुलना में 64.40% की वृद्धि दर्ज करते हुए अप्रैल-अगस्त, 2021 से अभी तक 39.71 मिलियन टन की उपलब्धि हासिल की है।
- (vii) रा.ज.-1 के माध्यम से 471 एमटी के एक ओडीसी (ग्रेसिम उद्योग के अमोनिया कन्वर्टर प्रेशर सेल) को कोलकाता से मिर्जापुर, उप्र तक लाया गया।
- (viii) सितंबर, 2021 के महीने के दौरान अंतर्देशीय जल पारगमन एवं व्यापार मार्ग पर प्रोटोकॉल के माध्यम से 4,47,732 एमटी कार्गो का आवागमन किया गया।

भारत और मालदीव के बीच समझौता

भारत और मालदीव के बीच एलआरआईटी प्रणाली में सहयोग के माध्यम से इस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, संरक्षा और पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ाने के लिए मालदीव गणराज सरकार की ओर से परिवहन और नागरविमानन मंत्री तथा भारत सरकार की ओर से भारत के उच्चायुक्त द्वारा दिनांक 30 सितंबर, 2021 को माले में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।